



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 40

नवंबर 07, 2025

संख्या 45

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(₹ करोड़)

मद	2024	2025		घट - बढ़	
	नवंबर 01	अक्टूबर 24	अक्टूबर 31	सप्ताह	वर्ष
	1	2	3	4	5
1 जारी नोट	3527282	3795998	3781006	-14992	253724
1.1 संचलन में नोट	3527267	3795985	3780994	-14991	253728
1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट	15	12	12	0	-3
2 जमा राशियां					
2.1 केंद्र सरकार	101	100	100	0	-0
2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना	0	0	0	0	0
2.3 राज्य सरकारें	42	42	42	0	0
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	991970	823260	842947	19687	-149022
2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	8314	7055	7077	23	-1237
2.6 अन्य बैंक	55984	47855	48432	577	-7552
2.7 अन्य	601299	679914	643557	-36357	42258
3 अन्य देयताएं	1915994	2565552	2574393	8842	658399
कुल देयताएं / आस्तियां	7100985	7919776	7897556	-22220	796570
1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4997797	5006377	5041923	35546	44125
2 सोना	586521	927080	903062	-24019	316541
3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	1310750	1732684	1730288	-2396	419538
4 ऋण और अग्रिम					
4.1 केंद्र सरकार	0	0	0	0	0
4.2 राज्य सरकारें	31294	23777	20016	-3761	-11278
4.3 नाबाई	0	0	0	0	0
4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	9032	35276	5489	-29787	-3543
4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0	0	0	0	0
4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-
4.7 भारतीय निर्यात -आयात बैंक	-	-	-	-	-
4.8 अन्य	146546	172426	174064	1637	27517
5 खरीदे और भुनाए गए बिल					
5.1 वाणिज्यिक	-	-	-	-	-
5.2 खजाना	-	-	-	-	-
6 निवेश	2064	2064	2064	0	0
7 अन्य आस्तियां	16981	20092	20651	559	3670

* डाटा अनंतिम है; अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

2. विदेशी मुद्रा भंडार*

मद	अक्टूबर 31, 2025 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
			सप्ताह		मार्च 2025 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल भंडार	6123031	689733	14732	-5623	410890	21407	387116	7603
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां#	5012117	564591	35264	-1957	161283	-2966	52175	-25258
1.2 स्वर्ण	903062	101726	-24019	-3810	234899	23549	316541	31975
1.3 विशेष आहरण अधिकार	165514	18644	1561	-19	10225	475	12317	426
1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति	42338	4772	1925	164	4482	349	6084	460

*अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

निम्नलिखित को शामिल नहीं करता है (क) रिज़र्व बैंक की एसडीआर होल्डिंग्स, क्योंकि वे एसडीआर होल्डिंग्स के तहत शामिल हैं; (ख) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी किए गए बांडों में निवेश; और (ग) सार्क और एसीयू मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था के अंतर्गत उधार दी गई राशि; और (घ) नेक्सस ग्लोबल भुगतान के निधियन में आरबीआई का योगदान।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

अक्टूबर 31, 2025 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ (सीआरआर) = ₹ 864207 करोड़	2025													
	अक्टूबर 18	अक्टूबर 19	अक्टूबर 20	अक्टूबर 21	अक्टूबर 22	अक्टूबर 23	अक्टूबर 24	अक्टूबर 25	अक्टूबर 26	अक्टूबर 27	अक्टूबर 28	अक्टूबर 29	अक्टूबर 30	अक्टूबर 31
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष	868963	866124	919333	900938	898992	870632	829657	833683	832832	873711	874247	844825	875432	849380
औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष	100.6	100.2	106.4	104.3	104.0	100.7	96.0	96.5	96.4	101.1	101.2	97.8	101.3	98.3

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

यद	अक्टूबर 17, 2025 को बकाया	निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़				
		पखवाड़ा	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2024-25	2025-26	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	317202	-1961	-468	7788	53712	23199
1.2 बैंकों से उधार	84169	256	-51652	-27807	-70172	-46608
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	27974	-461	-49195	-1942	-48380	4717
2 अन्य के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमाराशियां	23883278	-215363	1333105	1302677	2292522	2074946
2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		-0.9	6.5	5.8	11.7	9.5
2.1.1 मांग	2973155	-98441	100754	275106	295870	428547
2.1.2 मीयादी	20910123	-116922	1232351	1027571	1996652	1646399
2.2 उधारियां	860993	5063	87455	-54256	41515	-4404
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	1097738	50897	13188	36106	50493	147121
3 रिज़र्व बैंक से उधार	8733	7221	-214960	-302733	-136050	977
4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	915100	-58576	54894	-49189	67151	-160710
4.1 उपलब्ध नकदी	87638	-2441	1835	5764	466	-3630
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	827461	-56134	53058	-54953	66685	-157080
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष	243092	8822	11710	27291	20196	33055
5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	16905	-7280	5592	-8933	-5346	-1043
5.3 बैंकों को अग्रिम	31761	1296	-1475	-7743	-3183	-15133
5.4 अन्य आस्तियां	57267	-940	-50402	-10086	-28228	-7755
6 निवेश	6885114	8836	384450	187186	437579	394106
6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.1	6.3	2.8	7.2	6.1
6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	6884499	8798	384658	187201	437534	394232
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	615	38	-208	-15	45	-125
7 बैंक ऋण	19211865	-49468	805510	967892	1779787	1974190
7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		-0.3	4.9	5.3	11.5	11.5
7 क.1 खाद्य ऋण	52490	9830	-4427	15959	-1187	33836
7 क.2 खाद्येतर ऋण	19159375	-59298	809937	951934	1780974	1940355
7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट	18845770	-49560	787020	935918	1731960	1924447
7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए	86695	1011	7616	11732	21357	18611
7 ख.3 भुनाए गए	244216	468	12881	23156	27622	33977
7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए	12918	-1031	-586	-2204	-367	-2908
7 ख.5 भुनाए गए	22267	-355	-1421	-710	-784	63

नोट: 1 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

यद/समास सप्ताह	2024	2025				
	नवंबर 01	अक्टूबर 03	अक्टूबर 10	अक्टूबर 17	अक्टूबर 24	अक्टूबर 31
	1	2	3	4	5	6
अनुपात						
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.50	3.75	3.50	3.50	3.50	3.50
सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
नकदी-जमाराशि अनुपात	4.93	4.04	..	3.83	..	..
ऋण-जमाराशि अनुपात	79.16	79.93	..	80.44	..	..
वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात	64.79	67.02	..	74.30	..	..
निवेश-जमाराशि अनुपात	29.77	28.53	..	28.83	..	..
वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात	29.04	11.75	..	14.37	..	..
दरें						
नीतिगत रेपो दर	6.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
नियत रिवर्स रेपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
स्थायी जमा सुविधा (एमडीएफ)दर*	6.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25
स्थायी सीमांत सुविधा (एमएसएफ)दर	6.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
बैंक दर	6.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
आधार दर	9.10/10.40	8.35/10.30	8.35/10.00	8.35/10.00	8.35/10.00	8.35/10.00
एमसीएलआर (एक दिवसीय)	8.15/8.45	7.80/8.00	7.80/8.00	7.80/8.00	7.80/8.00	7.80/8.00
सावधि जमा दर > 1 वर्ष	6.00/7.25	5.85/6.60	5.85/6.60	5.85/6.60	5.85/6.60	5.85/6.60
बचत जमाराशि दर	2.70/3.00	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
मांग मुद्रा दर (भारंकिंत औसत)	6.50	5.47	5.43	5.43	5.53	5.58
91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.51	5.49	5.43	5.44	5.46	5.46
182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.64	5.59	5.55	5.55	5.59	5.60
364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.60	5.60	5.55	5.55	5.58	5.58
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)	6.81	6.47	6.48	6.47	6.49	6.50
एफबीआईएल[®] संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया						
भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	84.09	88.78	88.69	87.91	87.71	88.72
भारतीय रुपया-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	91.25	104.08	102.62	102.98	101.79	102.67
अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिया 1-माह	1.40	2.02	1.80	1.87	1.94	1.94
3-माह	1.64	2.19	2.08	2.08	2.08	1.98
6-माह	2.00	2.36	2.23	2.28	2.28	2.14

*प्रेस विज्ञापि संख्या 2022-2023/41, दिनांक 08 अप्रैल 2022 के अनुसार।

@ 10 जुलाई 2018 से, फाइनेंसियल बेचमार्कर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ बीआईएल) ने अमरीकी डॉलर / भारतीय रुपया की हाजिर दर तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का जिम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है। दिनांक अक्टूबर 13, 2023 से फार्वर्ड प्रीमियम के आंकड़े एफबीआईएल से लिए जाएंगे।

1 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025		पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2024-25		2025-26		2024		2025	
	मार्च 31	अक्टूबर 17	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	27286589	28714532	-180737	-0.6	1349422	5.4	1427943	5.2	2549349	10.7	2425250	9.2
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	3630751	3729201	30709	0.8	4957	0.1	98450	2.7	213550	6.7	313969	9.2
1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि	2840023	3118369	-98206	-3.1	101098	3.9	278347	9.8	297573	12.4	430383	16.0
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	20702508	21752052	-114298	-0.5	1239611	6.6	1049543	5.1	2012874	11.1	1664280	8.3
1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	113307	114910	1057	0.9	3755	4.0	1603	1.4	25352	34.8	16618	16.9
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	8510825	8693976	-40191	-0.5	321912	4.2	183150	2.2	550102	7.5	768493	9.7
2.1.1 रिज़र्व बैंक	1508105	1491026	-47488		-60780		-17080		113859		358593	
2.1.2 अन्य बैंक	7002720	7202950	7297	0.1	382691	6.0	200230	2.9	436243	6.9	409900	6.0
2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	19068129	20023114	-45108	-0.2	802437	4.7	954985	5.0	1812065	11.2	2017845	11.2
2.2.1 रिज़र्व बैंक	38246	14936	2323		-5231		-23309		3931		5761	
2.2.2 अन्य बैंक	19029883	20008178	-47431	-0.2	807668	4.7	978294	5.1	1808134	11.2	2012084	11.2
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	6148527	6600142	-33116	-0.5	425364	7.6	451615	7.3	945800	18.7	607274	10.1
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	36632	38864	0	0	1401	4.2	2232	6.1	3184	10.1	4031	11.6
2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुदेतर देयताएं	6477524	6641563	62322	0.9	201693	3.7	164039	2.5	761802	15.5	972393	17.2
2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुदेतर देयताएं	2147427	2609138	39938	1.6	136484	7.6	461711	21.5	453483	30.8	682520	35.4

नोट: 14 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2024-25		2025-26		2024		2025	
	मार्च 31	अक्टूबर 31	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	4829243	4833484	6652	0.1	86968	1.9	4241	0.1	335739	7.7	115069	2.4
1 घटक (1.1+1.2+1.3)												
1.1 संचलन में करेंसी	3724448	3819858	-14991	-0.4	50985	1.5	95410	2.6	249555	7.5	257412	7.2
1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंकर की जमाराशि	991488	898457	20286	2.3	30819	3.0	-93032	-9.4	60759	6.1	-157811	-14.9
1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	113307	115169	1357	1.2	5165	5.5	1863	1.6	25425	34.2	15468	15.5
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण	1508105	1529911	95435		17940		21806		94650		318758	
2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण	1475460	1509938	99196		-6754		34478		90137		330036	
2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	-119015	-121046	-92065		-160059		-2031		-202303		85160	
2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे	-157261	-134649	-90027		-155046		22612		-206460		80950	
2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5550947	5945483	11544	0.2	341779	6.5	394535	7.1	806348	16.9	362621	6.5
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	36632	38864			1748	5.2	2232	6.1	3240	10.1	3684	10.5
2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुदेतर देयता	2147427	2559728	8261	0.3	114440	6.4	412301	19.2	366196	23.8	655154	34.4

8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा						स्थायी चलनिधि सुविधाएं	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6-8)
	रेपो	रिवर्स रेपो	परिवर्तनशील रेपो दर	परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर	एमएसएफ	एसडीएफ		विक्रय	ऋय	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अक्टूबर 27, 2025	-	-	101810	-	3040	95046	-	-	-	9804
अक्टूबर 28, 2025	-	-	125521	-	529	129424	-	-	-	-3374
अक्टूबर 29, 2025	-	-	58512	-	615	85235	460	-	-	-25648
अक्टूबर 30, 2025	-	-	100012	-	624	120630	1	-	-	-19993
अक्टूबर 31, 2025	-	-	-	-	5489	140138	-	-	-	-134649
नवंबर 01, 2025	-	-	-	-	445	122685	-	-	-	-122240
नवंबर 02, 2025	-	-	-	-	370	119816	-	-	-	-119446

एसडीएफ: स्थायी जमा सुविधा; एमएसएफ: सीमांत स्थायी सुविधा।

9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

मद	2024		2025		वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन		
	अगस्त	सितंबर	अगस्त	सितंबर	पिछले महीने की तुलना में	मार्च की तुलना में	वर्ष-दर-वर्ष
	1	2	3	4	5	6	7
1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)	193.0	194.2	197.0	197.2	0.1	2.7	1.5
1.1 ग्रामीण	195.4	196.7	198.7	198.8	0.1	2.5	1.1
1.2 शहरी	190.3	191.4	195.0	195.3	0.2	2.8	2.0
2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100)	142.6	143.3	147.1	147.3	0.1	3.0	2.8
3 शोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	154.4	154.7	155.2	154.9	-0.2	0.1	0.1
3.1 प्राथमिक वस्तुएं	195.1	195.5	191.0	189.0	-1.0	1.9	-3.3
3.2 ईंधन और बिजली	148.3	147.2	143.6	143.4	-0.1	-5.7	-2.6
3.3 विनिर्मित उत्पाद	141.3	141.9	144.9	145.2	0.2	0.4	2.3

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, और श्रम ब्यूरो।

10. जमा प्रमाणपत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
अक्टूबर 17, 2025	502668	24608	5.50 - 6.40
अक्टूबर 31, 2025	514877	24530	5.76 - 6.46

11. वाणिज्यिक पत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
अक्टूबर 15, 2025	495679	30795	5.71 - 12.49
अक्टूबर 31, 2025	479630	52398	5.79 - 14.93

12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ करोड़)

मद	समाप्त सप्ताह		
	नवंबर 01, 2024	अक्टूबर 24, 2025	अक्टूबर 31, 2025
	1	2	3
1 मांग मुद्रा	16124	23253	27641
2 नोटिस/सावधि मुद्रा	2060	1823	8996
3 त्रिपक्षीय रेपो	781433	631977	896945
4 बाजार रेपो	567993	630603	789909
5 कॉरपोरेट बांड में रेपो	3420	12710	14800

13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ करोड़)

अक्टूबर 31, 2025 को	प्रमुख धारक			कुल
	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	राज्य सरकारें	
	1	2	3	4
91-दिवसीय	9157	20086	86636	215536
182-दिवसीय	52288	38487	17930	185730
364-दिवसीय	73818	73811	45149	358549
सीएमबी	-	-	-	-

14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार - दिनांकित प्रतिभूतियां

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

मद	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2025-26 (अक्टूबर 31, 2025 तक)	2024-25 (नवंबर 01, 2024 तक)	2024-25	2025-26 (अक्टूबर 31, 2025 तक)	2024-25 (नवंबर 01, 2024 तक)	2024-25
	1	2	3	4	5	6
1. भारत सरकार	885000	872697	1400697	678299	677151	1039275
2. राज्य सरकारें	557802	470479	1073310	381755	316728	753345

भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगत सिंह रोड, फोर्ट, मुंबई - 400001 की ओर से श्री आशीष थॉमस जॉर्ज, निदेशक द्वारा संपादित और श्री जी.वी. नथनएल, निदेशक द्वारा प्रकाशित।